

174
1.11.17

सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

उत्तराखण्ड शासन।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4

संख्या: — /XXXV-4/2017

देहरादून: दिनांक: 10 नवम्बर, 2017

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 30 अगस्त, 2017 को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना की समीक्षा बैठक के आवास विभाग द्वारा निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 (छायाप्रति-संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के सापेक्ष जारी कार्यवृत्त के पश्चात् प्राथमिकता वाले विषयों पर कार्यवाही पूर्ण, कार्यवाही गतिमान, कार्यवाही अनारम्भ इत्यादि पर अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ताकि मा0 मुख्यमंत्री जी को ससमय अवगत कराया जा सके। मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार भविष्य में सम्बन्धित विभाग की समीक्षा बैठक में पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की स्टेट्स रिपोर्ट की समीक्षा के साथ ही अगली बैठक प्रारम्भ की जायेगी।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्राथमिकता वाले निम्नांकित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए तत्संबन्धित अनुपालन आख्या/अध्यावधिक स्थिति से तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें:

1. देहरादून की दोनों नदियाँ बिंदाल व रिस्पना नदियों की सफाई/स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उनके पुर्नजीवीकरण की भी योजना बनाई जाय तथा नदियों के दोनों किनारों पर रोड़ व अवस्थापना सुविधायें विकसित की जायें।
2. निर्माण एजेन्सी के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गये हैं उक्त निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी से जाँच करायी जाये।
3. वर्तमान में रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण द्वारा किए जा रहे हैं। राजकीय निर्माण निगम का उक्त कार्य का अनुबन्ध की वैधता माह सितम्बर, 2017 तक है। अतः उनके द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों हेतु अग्रेत्तर समय सीमा विस्तारित न किया जाए एवं इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कार्ययोजना तैयार कर मा0 विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाए।
4. चयनित Pilot Streatch के प्रथम चरण में रिस्पना नदी पर धोरण पुल से डाउनस्ट्रीट में बालासुन्दरी मंदिर के पुल तक 1.2 किमी0 व बिंदाल नदी पर हरिद्वार बाईपास से

डाउनस्ट्रीट में चांचक पुल तक 2.2 किमी० क्षेत्र में रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट का कार्य प्राथमिकता पर किया जाना है, चूंकि उपरोक्त क्षेत्र में पुर्नवास तथा विस्थापन की समस्या नहीं है। अतः प्रथम चरण में चयनित उपरोक्त Pilot Streach को कराने हेतु विभिन्न वित्तीय विकल्प प्रस्तुत किए, जिसमें से PSU/Private Partner के सहयोग से आच्छादित प्रस्ताव पर मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, मुख्यमंत्री।

संख्या: 32 / XXXV-4 / 2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव, मुख्यमंत्री।